

जन संपर्क एवं मीडिया समन्वयक कार्यालय  
जामिया मिल्लिया इस्लामिया

प्रेस विज्ञप्ति

10 दिसंबर 2018

जामिया मिल्लिया ने अपने पूर्व वाइस चांसलर मुशीरूल हक को दी खिराज ए अक्रीदत

पद्म श्री, मशहूर इतिहासकार और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पूर्व वाइस चांसलर मुशीरूल हसन का आज निधन हो गया। उन्हें विश्वविद्यालय के कब्रिस्तान में सुपर्द ए खाक किया गया। इस दुखद मौके पर पूर्व उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी, बड़ी तादाद में जेएमआई, जेएनयू और दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापक, अधिकारी, कर्मचारी, छात्र और कई देशों के राजनयिक मौजूद थे।

विश्वविद्यालय के खचा खच भरे एम. एम. अंसारी सभागार में हुई शोक सभा में वाइस चांसलर शाहिद अशरफ ने कहा, “ आज का दिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के लिए बहुत ही दुखद है। प्रो हसन बहुत ही प्रेरणादायक वाइस चांसलर थे और उन्होंने जेएमआई के ढांचागत विकास तथा शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई।”

श्री मुशीरूल हसन ने नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के महानिदेशक, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के अध्यक्ष और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं।

जेएमआई के रजिस्ट्रार ए. पी. सिद्दीकी ने कहा कि प्रो हसन ने वाइस चांसलर के तौर पर विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए संसाधनों को जुटा कर इसका बड़े पैमाने पर ढांचागत विकास किया और इसके शैक्षिक स्तर को बुलंदियों की ओर ले गए।

मानविकी एवं भाषा विभाग के डीन वहाजुद्दीन अल्वी ने कहा कि इतिहास के क्षेत्र में प्रो हसन ने देश ही नहीं विदेश में भी बड़ा रूतबा हासिल किया।

जेएमआई के पूर्व रजिस्ट्रार एस एम अफ़ज़ल:आईपीएस: ने कहा कि एक इतिहासविद के रूप में प्रो हसन ने भारतीय उप महाद्वीप में मुस्लिम इतिहास को उसके सही परिप्रेक्ष्य में रखने का बड़ा काम किया।

प्रो हसन ने रामलाल आनंद कॉलेज और फिर रामजस कॉलेज में लेक्चरर के रूप में अपने कैरिअर की शुरुआत की। वह 1992 को जेएमआई के प्रो वाइस चांसलर बने। 1996-1997 में कार्यकारी वाइस चांसलर बने। 2004 से 2009 तक वह वाइस चांसलर के पद पर रहे।

तक़रीबन सत्तर साला हसन पिछले कुछ साल से एक सड़क हादसे और किडनी की समस्या की वजह से सेहत संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। तबियत बिगड़ने पर उन्हें कल देर रात अस्पताल ले जाया गया और सुबह उनका देहांत हो गया।

**अहमद अज़ीम**

जनसंपर्क अधिकारी एवं मीडिया संयोजक